



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 27—जून 2, 2006 (ज्येष्ठ 6, 1928)

No. 21]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 27—JUNE 2, 2006 (JYAISTHA 6, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices
of the Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 मई 2006

सं. डीपी/पर्स-1/2006/08/ए-19023/4/84--श्री फूल चंद्र ने
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, 31.03.2006 (अपराह्न) से उप
विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग
दिया।

शचिन बैजल

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स-1/2006/109/3/16/2005--श्री जी. एम. कुशीकर ने
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, 30.04.2006 (अपराह्न) से
पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग
दिया।

शचिन बैजल

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 2006

सं. 2/4/06-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में
निजी सहायक श्रीमती गीता अरोड़ा को निजी सचिव के पद पर
वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में तदर्थ रूप से दिनांक
03.05.2006 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों
तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

2. श्रीमती गीता अरोड़ा की निजी सचिव के पद पर नियुक्ति
समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टाफ) नियमावली,
1964 के नियम 9 के अन्तर्गत पूर्णतः अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर
है तथा इससे नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं
होता है।

मांगे लाल

विशेष कार्य अधिकारी

कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय
महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 मई 2006

सं. ओ.दो.-3585/2006-कार्मिक-1--भारत सरकार ने श्री जे. सी. दबास, भा.पु.से. (एम.टी.-77) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रु. 18,400-500-22,400/- में, कार्यभार ग्रहण करने को तिथि से 5 वर्ष को अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, अधिकारी ने पुलिस महानिरीक्षक, के.रि.पु. बल, का कार्यभार दिनांक 08.05.2006 (पूर्वाह्न) को संभाल लिया है।

जे. एन. शर्मा
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ.दो.-3687/06-सीआरसी(एमओ)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर अमन कुमार सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 28.04.2006 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 131 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, में तैनात किया जाता है।

जे. एन. शर्मा
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 11 मई 2006

सं. ओ.दो.-3586/2006-कार्मिक-1--भारत सरकार ने श्रीमती यशश्री शुक्ला, आई.पी. एवं टी.ए.एफ.एस. 1996 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रु. 12,000--16,500/- में, कार्यभार ग्रहण करने को तिथि से 4 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए उप निदेशक (लेखा) के पद पर नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, अधिकारी ने उप निदेशक (लेखा), के.रि.पु. बल, का कार्यभार दिनांक 08.05.2006 (पूर्वाह्न) को संभाल लिया है।

जे. एन. शर्मा
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

समन्वय निदेशालय
(पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 मई 2006

सं. ए-17011/15(के-21)/2005-प्रशा.-I--इस निदेशालय के श्री करतार चन्द्र अग्निहोत्री, उप निदेशक अपनी अधिवर्षिता को आयु होने पर दिनांक 30.04.2006 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

कमलेश डेका
निदेशक पुलिस दूरसंचार

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 मई 2006

सं. ई-31013(2)/5/2004/कार्मिक-2/1384--के.औ.सु.ब. के श्री धनंजय नायक सी., सहायक कमान्डेन्ट (कार्य) जो इस समय काठमांडू (नेपाल) में भारतीय दूतावास में तैनात हैं, को दिनांक 04.04.2006 (अपराह्न) से रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में के.औ.सु.ब. में उप कमान्डेन्ट के रैंक में 'ठीक निचला नियम' के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान को जाती है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औ.सु.ब.

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा), राजस्थान

जयपुर, दिनांक 2006

सं. प्रशा.-I/ले.प./पी.-13044/2006--प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर निम्नलिखित लेखा परीक्षा अधिकारियों को वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- में बरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (समूह 'बी' राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न रूप से उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों से आगामी आदेशों तक के लिए सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति तिथि
	सर्वश्री	
1.	बंशीधर व्यास	03.10.2005
2.	भीम सेन	02.11.2005
3.	कुलदीप कुमार सोरल	02.11.2005
4.	चन्दगी राम जाखड़-II	02.11.2005
5.	सुरेश चन्द्र माथुर-II	01.12.2005
6.	जगदीश नारायण गुप्ता	01.02.2006
7.	विष्णु दत्त शर्मा	13.02.2006
8.	विजय कुमार जैन	03.04.2006
9.	सुभाष चन्द्र कालरा	03.04.2006
10.	रामेश्वर प्रसाद शर्मा-IV	12.04.2006
11.	गोविन्द सिंह	19.04.2006
12.	नवल किशोर चौहान	01.05.2006

वी. के. जैन
वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशा.-I

सं. प्रशा.-I/ले.प./पी.-13044/2006--प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- में लेखा परीक्षा अधिकारी (समूह 'बी' राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न रूप से उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों से आगामी आदेशों तक के लिए सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति तिथि
	सर्वश्री	
1.	पित राम	03.10.2005
2.	दिलेर सिंह	02.11.2005
3.	हेत राम वर्मा	02.12.2005
4.	चांद बिहारी माथुर	02.01.2006
5.	श्याम लाल शर्मा-I	01.02.2006
6.	शम्भू सिंह सोलंकी	14.02.2006
7.	अशोक कुमार तोतला	03.04.2005
8.	जेठू सिंह भाटी	03.04.2006
9.	अशोक शर्मा	12.04.2006
10.	चन्द्र मोहन शर्मा	19.04.2006
11.	कैलाश चन्द्र शर्मा-III	03.05.2006

वी. के. जैन

वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशा.-I

सं. प्रशा.-I/ले.प./पी.-13044/2006--प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को वेतनमान रु. 7,450-225-11,500/- में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (समूह 'बी' राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न रूप से उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर आगामी आदेशों तक के लिए सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति तिथि
	सर्वश्री	
1.	घनश्याम शर्मा	05.10.2005
2.	कल्याण सहाय रैगर	08.11.2005
3.	राम मनोहर खण्डेलवाल	07.12.2005
4.	भगवान सहाय मीणा	07.12.2005
5.	सेडू लाल वर्मा	02.01.2006
6.	देवी शंकर श्रीवास्तव	02.01.2006

1	2	3
7.	रणवीर सिंह श्योरण	02.02.2006
8.	रजनीश मेहता	14.02.2006
9.	कंवर पाल मिश्रा	03.04.2006
10.	मेघराज कुमावत	03.04.2006
11.	श्रीमती सरोज शर्मा	03.04.2006
12.	गुरिन्दर सिंह	12.04.2006
13.	मोहन लाल जांगिड़	20.04.2006

वी. के. जैन

वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशा.-I

सं. प्रशा.-I/ले.प./पी.-13044/2006--प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर निम्नलिखित निजी सचिव को वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- में वरिष्ठ निजी सचिव (समूह 'बी' राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न रूप से उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट तिथि से आगामी आदेशों तक के लिए सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति तिथि
1.	श्री के. थॉमस	02.01.2006

वी. के. जैन

वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशा.-I

सं. प्रशा.-I/ले.प./पी.-13044/2006--प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर निम्नलिखित स्टेनोग्राफर ग्रेड-I को वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में निजी सचिव (समूह 'बी' राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न रूप से उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर आगामी आदेशों तक के लिए सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति तिथि
1.	श्री जगदीश बूलचन्दानी	02.01.2006

वी. के. जैन

वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशा.-I

कार्यालय महालेखाकार (ल.व.ह.), जम्मू व कश्मीर

श्रीनगर, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. प्रशासन-I/ल.व.ह./एस-I/05-06/2567--महालेखाकार महोदय ने श्री सुरिन्द्र कुमार कौल, सहायक लेखा अधिकारी (जन्म तिथि 03.05.1950) को स्थानापन्न रूप में रु. 7,500-250-12,000/- के

वेतनमान में 20.03.2006 से प्रभावी अथवा जिस तिथि से वह मुख्य कार्यालय में लेखा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं, जो भी बाद में घटे, के रूप में पदोन्नत करने की अनुकम्पा की है। पदोन्नत अधिकारी, अपनी पदोन्नति की तिथि से लेकर एक मास के भीतर नियमानुसार अपना वेतन उच्च संवर्ग में नियत करवाने के लिए विकल्प कर प्रयोग कर सकता है।

ह./- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (ल.व.ह.)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 1 मई 2006

सं. डब्ल्यू.एम.-I/स्थापना/22--महालेखाकार (लेखा व हक.), पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी-I को इस आदेश के द्वारा वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में वेतनमान रुपये 7,500-250-12,000/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिवीजन/प्रत्येक के नाम के समक्ष लिखित डिवीजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों के अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

क्रमांक	नाम
1.	श्री मृणाल कांति घोष

उपरोक्त अधिकारी प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के अन्दर एफ.आर. 22(1)(क)(i) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

एस. ए. पंडा
उप महालेखाकार (लेखा)

दिनांक 4 मई 2006

सं. डब्ल्यू.एम.-I/स्थापना/23--महालेखाकार (लेखा व हक.), पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-II को इस आदेश के द्वारा विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में वेतनमान रुपये 7,450-225-11,500/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिवीजन/प्रत्येक के नाम के समक्ष लिखित डिवीजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

क्रमांक	नाम
1.	श्री देवकी नारायण दास

उपरोक्त अधिकारी प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के अन्दर एफ.आर. 22(1)(क)(i) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

एस. ए. पंडा
उप महालेखाकार (लेखा)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 2006

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद द्वारा सहर्ष अनुमति के साथ लेखा अधिकारियों को पदोन्नत किया जाता है ताकि नीचे दर्शाए गए नामित कर्मचारी प्रस्तुत दिनांक से रुपये 7,500-250-12,000/- वेतनमान में स्थानापन्न रूप में सहायक लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद में काम करेंगे :-

क्रम सं.	नाम	लेखा अधिकारी के पद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री आर. लक्ष्मणा सरमा	08.05.2006
2.	कुमारी के. उमा देवी	08.05.2006
3.	श्री एस. प्रभाकर राव	09.05.2006

यदि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में रिट अर्जी लंबित है। इसके अलावा भी यह पदोन्नति बिना किसी वरिष्ठ कर्मचारी का दबाव या बिना पूर्वाग्रह आदेश के जारी किया जाता है।

एम. प्रकाश राव
उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (ले. व ह.) का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 12 मई 2006

सं. का.स्था./ह. व रो./ई-IV-पें./26--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग की निम्नलिखित अधिकारी सेवानिवृत्त हुई हैं :-

क्रम सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्रीमती ई. सी. अम्मिणी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रधान कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम	30.04.2006 (अधिवर्षिता)

एम. राजन
उप महालेखाकार (प्रशासन)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

धनबाद, दिनांक 11 मई 2006

सं. विधि/जी-22/06/45--मैं, भास्कर भट्टाचार्यजी, जो मुख्य खान निरीक्षक और खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी पदाभिहित हूँ, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 75 के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, और इस विषय पर पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या विधि/जी-22/85-883 दिनांक 30.01.1990 जो भारत के राजपत्र, भाग-III खण्ड 1 में दिनांक 3 मार्च 1990 को प्रकाशित हुआ है को अधिकृत करते हुए, इस निदेशालय के सभी अधिकारियों को, जो मुख्य खान निरीक्षक के अधीनस्थ हैं, और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, उनको सम्बन्धित निरीक्षक अधिकारिता के भीतर जो उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन की गई है किसी भी खान के स्वामी, अधिकर्ता या प्रबन्धक के विरुद्ध उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन संस्थित करने के लिए साधारण प्राधिकृत करता हूँ।

भास्कर भट्टाचार्यजी
मुख्य खान निरीक्षक और
खान सुरक्षा महानिदेशक

लघु उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 2006

सं. ए-19018/952/88-प्रशा.(राज.)--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री ए. के. शर्मा, सहायक निदेशक (ग्रेड-I) (रसायन), लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली से दिनांक 31.03.2006 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

डी. के. गौतम
उप निदेशक (प्रशा.)

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 2006

सं. ए-38012/9/2005-प्रशासन-I--सेवा निवृत्ति की आयु हो जाने के फलस्वरूप श्री अशोक कुमारी पुरी, निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिनांक 30.04.2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

बी. एन. प्रसाद
उप निदेशक प्रशासन (बी.एन.पी.)

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-400085, दिनांक 4 मई 2006

सं. पीडी/6(1)/2006-आर-III/2006/3773--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती जयश्री मोहन नायर, सहायक, भापा केन्द्र, मुम्बई को दिनांक 28.04.2006 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में इस अनुसंधान केन्द्र में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 5 मई 2006

सं. पीडी/7(18)/2005-आर-4/3736--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारियों/इन्जीनियरों ग्रेड एसबी के पद पर, रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में 1 अगस्त, 2005 के पूर्वाह्न से, श्री ए. के. राव, क्रम संख्या 2, कुमारी आर. मधुपर्णा दत्ता, क्रम संख्या 7 एवं श्रीमती हेमांगी गायकवाड़, क्रम संख्या 29 जिनकी नियुक्ति तिथियां क्रमशः अगस्त 16, 2005, अगस्त 4, 2005 एवं अगस्त 22, 2005 के पूर्वाह्न से हैं, को छोड़कर आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से इसी अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
1	2	3
	सर्वश्री/सुश्री	
1.	निरज कुमार	एसए/सी
2.	राव ए. के.	एसए/सी
3.	राजेश बाबू	एसए/सी
4.	सेथी एन. के.	एसए/सी
5.	दिलीप सी. एस.	एसए/सी
6.	श्रीमती लोखंडे एम. आर.	एसए/सी
7.	कुमारी दत्ता मधुपर्णा आर.	एसए/सी
8.	मिश्रा नलिनी रंजन	एसए/सी
9.	श्रीमती प्रेमलता एस.	एसए/सी
10.	संगिता मीनाक्षी	एसए/सी
11.	संतोष कुमार एस.	एसए/सी
12.	शिवकुमार के. एस.	एसए/सी
13.	शिवरामकृष्णा बी.	एसए/सी
14.	वेंकटेशन सी.	एसए/सी
15.	श्रीमती विजयालक्ष्मी एस.	एसए/सी

1	2	3
	सर्वश्री/सुश्री	
16.	श्रीमती कांबले सुचिता एन.	एसए/सी
17.	डॉ. सातदिवे आर. के.	एसए/सी
18.	सुब्रमण्यम एन. बी. वी.	एसए/सी
19.	गुजर आर. बी.	एसए/सी
20.	गुप्ता एस. के.	एसए/सी
21.	अनिल शर्मा	एसए/सी
22.	श्रीमती राजलक्ष्मी एन.	एसए/सी
23.	नायर विमलनाथ के. वी.	एसए/सी
24.	शिंदे एस. एच.	एसए/सी
25.	संजय सिंह	एसए/सी
26.	श्रीमती श्रीनिवासन प्रिया	एसए/सी
27.	अजय कुमार	एसए/सी
28.	अनिल कुमार	एसए/सी
29.	श्रीमती गायकवाड़ हेमांगी	एसए/सी

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

मुम्बई-400085, दिनांक मई 2006

सं. पीडी/8(9)/2005-भर्ती-IV/डीजीएफएस-03/ओपीए-3813--
राष्ट्रपति, कु. हर्षा कोचर को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिक
अधिकारी/इन्जीनियर श्रेणी 'सी' के पद पर रु. 8,000-275-13,500/-
के वेतनमान पर दिनांक 1 दिसम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों
तक अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं।

पी. वेणुगोपालन
नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 8 मई 2006

सं. 20/13(1)/2005-सीसीएस/9--राष्ट्रपति, इस विभाग के
श्री अमीर्तम जॉन स्टीफन, सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतनमान
रु. 6,500--10,500/-), भारी पानी संयंत्र (तूतीकोरीन) को दिनांक
15.12.2005 (पूर्वाह्न) से दिनांक 18.02.2006 (अपराह्न) तक की
अवधि हेतु तदर्थ आधार पर उसी संयंत्र में प्रशासन अधिकारी-III
(वेतनमान रु. 10,000--15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक मई 2006

सं. पखनि-51(39)/2005-पेन--परमाणु खनिज अन्वेषण एवं
अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी
ने अधिवर्षिता प्राप्त करने के दौरान उनके नाम के समक्ष उल्लिखित
तारीख से अपना कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यभार से मुक्त होने की तारीख	घटना
1.	श्री देवाब्रता सेन वैज्ञानिक अधिकारी-एच*	30.04.2006	अधिवर्षिता प्राप्त करने पर
			जी. एम. नायर मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डियो फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 7 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560/एस.ई.एस./05/22587/99--कम्पनी अधिनियम
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना
दी जाती है कि मैसर्स डियो फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज
रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री राम प्रिजर्वैशन्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 7 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560/एस.ई.एस./05/24805/100--कम्पनी अधिनियम
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना
दी जाती है कि मैसर्स श्री राम प्रिजर्वैशन्स प्राईवेट लिमिटेड का
नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो
गई है।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रोहिमा इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 7 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560/एस.ई.एस./05/17971/101--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स रोहिमा इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स सुमि बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 7 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/19545/102--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सुमि बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स क्वालिटी एरोमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 7 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/8411/106--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स क्वालिटी एरोमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स अल-हेन रीयल इस्टेट एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 7 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/19944/110--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज

की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स अल-हेन रीयल इस्टेट एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स पदमनी इन्जीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 7 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/7280/114--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स पदमनी इन्जीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स हरिसन लैबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 7 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/17470/118--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स हरिसन लैबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स कामधेनू कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 7 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/7192/122--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कामधेनू कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी

के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स वी. के. एक्सप्रेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 7 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/24282/126--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स वी. के. एक्सप्रेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स विधि इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 7 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/17706/138--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स विधि इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स ए. आर. वी. पॉवर लिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 7 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/15025/130--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ए. आर. वी. पॉवर लिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स मांगा पिर्पस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 7 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/7867/142--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स मांगा पिर्पस प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स अलग फाईनेन्सर्स लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 7 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/22246/134--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स अलग फाईनेन्सर्स लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स हिन्दन लेमिनेशन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 7 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/11879/146--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स हिन्दन लेमिनेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो

तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में।

कटक, दिनांक 9 मई 2006

सं. आर.ओ.सी./एस.ई.एस.-560/2006/234--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनियों का नाम काट दिया गया है :--

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	15-001454	मैसर्स कालाहांडी सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-000641	मैसर्स लियो केमिकल इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-000519	मैसर्स दुर्गा प्रसाद बोर्ड एण्ड इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-001675	मैसर्स राजलक्ष्मी वेजिटेबल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	15-001694	मैसर्स ईस्टकोस्ट पिक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	15-002840	मैसर्स ग्लैज ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड
7.	15-005267	मैसर्स अर्चना पावरसीस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
8.	15-003946	मैसर्स एन. एम. ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
9.	15-002232	मैसर्स उमा शंकर आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
10.	15-002803	मैसर्स सुचरिता पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
11.	15-004439	मैसर्स टूएन इन्फोसिस्टम प्राईवेट लिमिटेड

डी. के. सिंह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में।

कटक, दिनांक 11 मई 2006

सं. आर.ओ.सी./एस.ई.एस.-05/2006/244--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनियों का नाम काट दिया गया है :--

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1.	15-00374	मैसर्स उत्कल वानिज्य प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-05821	मैसर्स सिसेल केबल्स एण्ड कन्डक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-06014	मैसर्स पात्रा सिक्युरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड

डी. के. सिंह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 12th May 2006

No. 44/2005/SCA/Genl.—In partial modification of Notification of even number dated 28th March, 2006 notifying the composition and sitting of the Division Benches of Hon'ble Judges as Vacation Judge during the Summer Vacation of the Supreme Court from 15th May to 2nd July, 2006 (both days inclusive), it is hereby notified that during the first part of the vacation from 26th May to 31st May, 2006. Hon'ble the Chief Justice of India has nominated the following Division Bench as Vacation Judges for hearing urgent miscellaneous matters and old regular matters :—

1st Part of Vacation (15.5.2006 to 31.5.2006)

1 For the period from 26.5.2006 to 31.5.2006	(i) Hon'ble Mr. Justice Arijit Pasayat (ii) Hon'ble Mr. Justice Lokeshwar Singh Panta	For hearing urgent miscellaneous matters on Monday and old regular matters on Friday, Tuesday and Wednesday
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The rest of the aforesaid Notification dated 28th March, 2006 remains unchanged.

R. C. GANDHI
Registrar (Admn. J)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110 003, the 9th May 2006

No. DP/Pers. I/2006/108/A. 19023/4/84.—Shri Phool Chandra relinquished charge of the post of Dy. Legal Adviser, CBI with effect from 31.3.2006 (A. N.) on attaining the age of superannuation.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Pers.)

No. DP/Pers. I/2006/109/3/16/2005.—Shri G. M. Kushikar relinquished charge of the post of Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 30.4.2006 on attaining the age of superannuation.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Pers.)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 10th May 2006

No. 2/4/06-Admn./24390/SP 267020807.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Smt. Geeta Arora, Personal Assistant in the Commission as Private Secretary, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, on ad hoc basis, with effect from the forenoon of 03.05.2006 for a period of three months or till further order, whichever is earlier.

2. Appointment of Smt. Geeta Arora, to the post of Private Secretary is purely temporary and on ad hoc basis under Rule 9 of the CVC (Staff) Rules, 1964 as amended from time to time and will not bestow upon her any claim for regular appointment.

MANGE LAL
Officer on Special Duty
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-03, the 10th May 2006

No. O. II. 3585/2006. Pers. I.—The Govt. of India has appointed Shri J. C. Dabas, IPS (MT : 77) as Inspector General of Police in CRPF in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- on deputation basis for a period of five years from the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. The officer accordingly took over the charge to the post of Inspector General of Police, CRPF in the forenoon of 08.05.2006.

J. N. SHARMA
Addl. DIGP (Pers.-I)

No. O. II-3687/06-CRC (MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Aman Kumar Singh as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 28.4.2006 till further order. He is posted to 131 Bn, CRPF.

J. N. SHARMA
ADIG (Pers.-I)

The 11th May 2006

No. O. II. 3586/2006. Pers. I.—Government of India has appointed Smt. Yashashri Shukla, IP & TAFS, 1996 Batch as Dy. Director (Accts) in CRPF in the pay scale of Rs. 12,000—16,500/- on deputation basis for a period of four years from the date of taking over charge of the post or until further orders, whichever is earlier.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Deputy Director (Accts), CRPF on the forenoon of 08.05.2006.

J. N. SHARMA
Addl. DIGP (Pers.-I)

DIRECTORATE OF COORDINATION
(POLICE WIRELESS)

New Delhi-3, the 8th May 2006

No. A-17011/15 (K-21)/2005-Admn. I.—Shri Kartar Chand Agnihotri, Deputy Director of this Directorate has retired

from Government service on attaining the age of superannuation in the afternoon of 30.04.2006.

KAMLESH DEKA
Director Police Telecommunications

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110 001, the 16th May 2006

No. E-31013(2)/5/2004/Pers. II/1384.—Shri Dhananjaya Naik C., Assistant Commandant (Exe) of CISF who is presently deployed in Indian Embassy at Kathmandu (Nepal), is hereby granted proforma promotion under 'Next Below Rule' to the rank of Deputy Commandant in CISF in the pay-scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 04.04.2006 (Afternoon).

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (CIVIL
AUDIT) RAJASTHAN,

Jaipur, the 2006

No. Admn. I/Au/P-13044/2006.—The Pr. Accountant General (Civil Audit) Rajasthan, Jaipur has been pleased to promote the following Audit Officers to the post of Sr. Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in an officiating capacity till further orders from the dates noted against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1	2	3
	S/Shri	
1.	Bansi Dhar Vyas	03.10.05
2.	Bhim Sen	02.11.05
3.	Kuldeep Kumar Soral	02.11.05
4.	Chandgi Ram Jakhar II	02.11.05
5.	Suresh Chandra Mathur II	01.12.05
6.	Jagdish Narain Gupta	01.02.06
7.	Vishnu Dutt Sharma	13.02.06
8.	Vijay Kumar Jain	03.04.06
9.	Subhash Chandra Kalra	03.04.06
10.	Rameshwar Prasad Sharma IV	12.04.06
11.	Govind Singh	19.04.06
12.	Nawal Kishore Chauhan	01.05.06

V. K. JAIN
Sr. Audit Officer/Admn. I.

No. Admn. I/Au/P-13044/2006.—The Pr. Accountant General (Civil Audit) Rajasthan, Jaipur has been pleased to promote the following Asstt. Audit Officers to the post of Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in an officiating capacity till further orders from the dates noted against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1	2	3
	S/Shri	
1.	Pit Ram	03.10.05
2.	Diler Singh	02.11.05
3.	Het Ram Verma	02.12.05
4.	Chand Bihari Mathur	02.01.06
5.	Shyam Lal Sharma I	01.02.06
6.	Shambhu Singh Solanki	14.02.06
7.	Ashok Kumar Totla	03.04.05
8.	Jethu Singh Bhati	03.04.06
9.	Ashok Sharma	12.04.06
10.	Chandra Mohan Sharma	19.04.06
11.	Kailash Chandra Sharma-III	03.05.06

V. K. JAIN
Sr. Audit Officer/Admn. I.

No. Admn. I/Au/P-13044/2006.—The Pr. Accountant General (Civil Audit) Rajasthan, Jaipur has been pleased to promote the following Section Officers to the post of Asstt. Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- in an officiating capacity on the probation of two years till further orders from the dates noted against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1	2	3
	S/Shri	
1.	Ghanshyam Sharma	05.10.05
2.	Kalyan Sahai Regar	08.11.05
3.	Ram Manohar Khandelwal	07.12.05
4.	Bhagwan Sahai Meena	07.12.05
5.	Sedu Lal Verma	02.01.06
6.	Devi Shanker Srivastav	02.01.06
7.	Ranveer Singh Syoran	02.02.06
8.	Rajneesh Mehta	14.02.06

1	2	3
	S/Shri	
9.	Kanwar Pal Mishra	03.04.06
10.	Meghraj Kumawat	03.04.06
11.	Smt. Saroj Shanna	03.04.06
12.	Gurinder Singh	12.04.06
13.	Mohan Lal Jangid	20.04.06

V. K. JAIN
Sr. Audit Officer/Admn. I.

No. Admn. I/Au/P-13044/2006.—The Pr. Accountant General (Civil Audit) Rajasthan, Jaipur has been pleased to promote the following Private Secretary to the post of Sr. Private Secretary (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in an officiating capacity till further orders from the dates noted against his name :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1	2	3
	S/Shri	
1.	K. Thomas	02.01.06

V. K. JAIN
Sr. Audit Officer/Admn. I.

No. Admn. I/Au/P-13044/2006.—The Pr. Accountant General (Civil Audit) Rajasthan, Jaipur has been pleased to promote the following Stenographer Grade I to the post of Private Secretary (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in an officiating capacity on the probation of two years till further orders from the dates noted against his name :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1	2	3
	S/Shri	
1.	Jagdish Boolchandani	02.01.06

V. K. JAIN
Sr. Audit Officer/Admn. I.

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E)
J & K

Srinagar, the 20th March 2006

No. Admn. I/A&E/S-1/05-06/2567.—Accountant General has been pleased to promote Sh. Surrinder Kumar Koul, Asstt. Accounts Officer (Date of Birth : 03.05.1950) to the

cadre of Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in an officiating capacity with effect from 20.03.2006 or from the date he takes over in the higher cadre at Head Office, Srinagar whichever is later.

The promoted officer shall have to exercise an option for fixation of his pay in the higher cadre within a period of one month from the date of his promotion as required under Rules.

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (A & E)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E),
WEST BENGAL

Calcutta-700 001, the 1st May 2006

No. WH-I/Estt/22.—Under the orders of the A. G. (A & E), W. B. the following Divisional Accounts Officer Grade I are hereby promoted as Senior Divisional Accounts Officer in the pay scale Rs. 7,500-250-12,000/- in temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charge as Senior Divisional Accounts Officer in the present divisions/division noted against him till further order. He will be on probation for a period of 02 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service.

Sl. No.	Name
1.	Mrinal Kanti Ghosh

The above named officer may submit his options under FR 22 (I) (a) (i) within one month from the date of taking over charge as Sr. D. A. O. for fixation of pay on promotion.

S. A. PANDA
Dy. Accountant General (A/Cs)

The 4th May 2006

No. WH-I/Estt/23.—Under the orders of the Pr. A. G. (A & E), W. B. the following Divisional Accounts Officer Grade II are hereby promoted as Divisional Accounts Officer Grade I in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- in temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charge as Divisional Accounts Officer Grade I in the present division noted against him till further order. He will be on probation for a period of 02 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service.

Sl. No.	Name
1.	Debaki Narayan Das

The above named officer may submit his options under FR 22 (I) (a) (i) within one month from the date of taking over charge as Sr. D. A. O. for fixation of pay on promotion.

S. A. PANDA
Dy. Accountant General (A/Cs)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E)
ANDHRA PRADESH

Hyderabad, the 2006

Accountant General (A & E), A. P. Hyderabad is pleased to promote the undermentioned Assistants Accounts Officers to officiate as Accounts Officers in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the dates shown against their names :—

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge as A. O.
1.	Sri R. Laxmana Sarma	08.05.2006 F. N.
2.	Ms. K Uma Devi	08.05.2006 F. N.
3.	Sri S. Prabhakara Rao	09.05.2006 F. N.

The promotion ordered is without prejudice to the claims of their seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

M. PRAKASA RAO
Dy. Accountant General (Administration)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E),
KERALA

Thiruvananthapuram, the 12th May 2006

No. O. E/E & C/EIVP/26.—The following Official of IA & AD retired from Service :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of retirement
1.	Smt. E. C. Ammini	Senior Accounts Officer, Main Office, Trivandrum	30.04.2006 (Super-annuation)

M. RAJAN
Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
(DIRECTORATE GENERAL OF MINES SAFETY)

Dhanbad, the 11th May 2006

No. Law/G-22/06/145.—I, Bhaskar Bhattacharjee, Chief Inspector of Mines and also designated as Director General

of Mines Safety, by virtue of powers conferred on me under Section 75 of the mines Act, 1952 (35 of 1952) and in supersession of the notification No. Law/G-22/85/883 dated 30.1.1990 published in the Gazette of India, Part III Section I dated 3.3.1990 on the subject do hereby generally authorize all officers of this Directorate who are sub-ordinate to the Chief Inspector of Mines and who are appointed as Inspector of Mines under Sub-section (I) of Section 5 of the said Act, to institute prosecutions for any offence under the said Act, against the owner, agent or manager of any mine situated within their respective Inspection Jurisdiction as declared under Sub-section (3) of Section 6 of the said Act.

BHASKAR BHATTACHARJEE
Chief Inspector of Mines and
Director General of Mines Safety

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 9th May 2006

No. A-19018(952)/88-Admn. (G).—On attaining the age of superannuation, Shri A. K. Sharma, Asstt. Director Gr. I (Chem), SISI, New Delhi under Small Industry Development Organization retired from Government Service on the afternoon of 31st March, 2006.

D. K. GAUTAM
Dy. Director (Admn.)

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 9th May 2006

No. A-38012/9/2005-Admn.-I.—On attaining the age of superannuation Shri Ashok Kumar Puri, Director Admn. in the Directorate General of Health Services retired from Government service with effect from, 30.04.2006 (Afternoon).

B. N. PRASAD
Dy. Director Admn. (BNP)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 4th May 2006

No. PD/6(1)/2006-R-III/2006/3773.—Controller, BARC appoints Smt. Jayashree Mohan Nair, Assistant, BARC, Mumbai to officiate as Asstt. Personnel Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- at BARC, Mumbai w.e.f. the forenoon of 28th April, 2006 on regular basis until further orders.

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(18)/2005-R-IV/3736.—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints the undermentioned officers of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific

Officers/Engineers Grade 'SB' in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of 1st August, 2005 except Shri A. K. Rao, Sl. No. 2, Kum. R. Madhuparna Dutta, Sl. No. 7 and Smt. Hemangi Gaikwad, Sl. No. 29 whose dates of appointment are with effect from the forenoon of 16th August, 2005, 4th August, 2005 and 22nd August, 2005 respectively, in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade
	S/Shri	
1.	Niraj Kumar	SA/C
2.	Rao A. K.	SA/C
3.	Rajesh Babu	SA/C
4.	Sethy N. K.	SA/C
5.	Dileep C. S.	SA/C
6.	Lokhande M. R. (Smt.)	SA/C
7.	Dutta Madhuparna R. (Kum.)	SA/C
8.	Mishra Nalini Ranjan	SA/C
9.	Premalatha S. (Smt.)	SA/C
10.	Sangeetha Meenakshi	SA/C
11.	Santosh Kumar S.	SA/C
12.	Sivakumar K. S.	SA/C
13.	Sivaramakrishna B.	SA/C
14.	Venkatesan C.	SA/C
15.	Vijayalakshmi S. (Smt.)	SA/C
16.	Kamble Suchita N. (Smt.)	SA/C
17.	Satdive R. K. Dr.	SA/C
18.	Subrahmanyam N. B. V.	SA/C
19.	Gujar R. B.	SA/C
20.	Gupta S. K.	SA/C
21.	Sharma Anil	SA/C
22.	Rajalakshmi N. (Smt.)	SA/C
23.	Nair Vimalnath K. V.	SA/C
24.	Shinde S. H.	SA/C
25.	Singh Sanjay	SA/C
26.	Srinivasan Priya (Smt.)	SA/C
27.	Ajay Kumar	SA/C
28.	Anil Kumar	SA/C
29.	Gaikwad Hemangi (Smt.)	SA/C

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

Mumbai-85, the May 2006

No. PD/8 (9)/2005-R-IV/DGFS-03/opa. 3813.—The President is pleased to appoint Kum. Harsha Kochar as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in Bhabha Atomic Research Centre with effect from the forenoon of 1st December, 2005 in a temporary capacity until further orders.

P. VENUGOPALAN
Controller

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 8th May 2006

No. 20/13 (1)/2005-CCS/9.—The President is pleased to appoint Shri Amirtham John Stephen, Assistant Personnel Officer (Scale of pay Rs. 6,500—10,500/-), Heavy Water Plant (Tuticorin) of this Department as Administrative Officer-III (Scale of pay Rs. 10,000—15,200/-) in the same Plant on ad hoc basis with effect from 15.12.2005 (FN) to 18.02.2006 (AN).

SOBHA DEVI N.
Under Secy.

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION AND RESEARCH

Hyderabad-500 016, the May 2006

No. AMD-51(39)/2005-Pen.—On attaining the age of superannuation, the following Officer have relinquished the charge of his post in the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research of Department of Atomic Energy on the date mentioned against his name :—

Sl. No.	Name & Designation	Date of Relinquishment	Event
1.	Shri Debabrata Sen, Scientific Officer-H ⁺	30.04.2006	Superannuation

G. M. NAIR
Chief Administrative & Accounts Officer

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

(OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Deo Fuels Private Limited

Kanpur-208001, the 7th April 2006

No. 560(5)/LC/SES-2003/22587/99.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Deo Fuels Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Ram Preservations Private Limited

Kanpur-208001, the 7th April 2006

No. 560(5)/LC/SES-2003/24805/100.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shree Ram Preservations Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rovima Investments Private Limited

Kanpur-208001, the 7th April 2006

No. 560(5)/LC/SES-2003/17971/101.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rovima Investments Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Suhbhi Builders Private Limited

Kanpur-208001, the 7th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/19545/102.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Suhbhi Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Quality Aromatics Private Limited

Kanpur-208001, the 7th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/8411/106.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Quality Aromatics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Al-Train Real Estate & Developers Private Limited

Kanpur-208001, the 7th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/19944/110.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Al-Train Real Estate & Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Padmini Engineers & Consultants Private Limited

Kanpur-208001, the 7th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/7280/114.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Padmini Engineers & Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Harison Laboratories Private Limited

Kanpur-208001, the 7th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/17470/118.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months

from the date hereof the name of M/s. Harison Laboratories Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kamdhenu Consultants Private Limited

Kanpur-208001, the 7th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/7192/122.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kamdhenu Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Beekay Express Services Limited

Kanpur-208001, the 7th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/24282/126.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Beekay Express Services Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. ARB Power Links Private Limited

Kanpur-208001, the 7th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/15025/130.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. ARB Power Links Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Alag Financiers Limited

Kanpur-208001, the 7th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/22246/134.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Alag Financiers Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vidhi Enterprises Private Limited

Kanpur-208001, the 7th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/17706/138.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vidhi Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maga Pipers Private Limited

Kanpur-208001, the 7th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/7867/142.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Maga Pipers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hindon Lamination Private Limited

Kanpur-208001, the 7th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/11879/146.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months

from the date hereof the name of M/s. Hindon Lamination Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act 1956 and of the following Companies

Cuttack-753 001, the 9th May 2006

No. ROC/US. 560(5)/2006/234.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies and are dissolved.

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15-001454	M/s. Kalahandi Cement Private Limited
2.	15-000641	M/s. Leo Chemical Industries Private Limited
3.	15-000519	M/s. Durga Prasad Board & Industries Private Limited
4.	15-0001675	M/s. Rajalakshmi Vegetable Products Private Limited
5.	15-001694	M/s. East Coast Pictures Private Limited
6.	15-002840	M/s. Glaze Granite Private Limited

1	2	3
7.	15-005267	M/s. Archana Powersys Private Limited
8.	15-003946	M/s. N. M. Human Resources Development Private Limited
9.	15-002232	M/s. Uma Shankar Ice & Cold Storage Private Limited
10.	15-002803	M/s. Sucharita Publications Private Limited
11.	15-004439	M/s. 2N Infosystems Private Limited

D. K. SINGH
Asstt. Registrar of Companies
Orissa

In the matter of the Companies Act 1956 and of the following Companies

Cuttack-753 001, the 11th May 2006

No. ROC/SES. 05/2006/244.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15-000374	M/s. Utkal Banijya Private Limited
2.	15-005821	M/s. Tinsel Cables & Conductors Private Limited
3.	15-006014	M/s. Patra Security Services Private Limited

D. K. SINGH
Asstt. Registrar of Companies
Orissa